


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 1978/पौष 20, 1899

No. 21] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 1978/PAUSA 20, 1899

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1978

सा. खा. नि. 28 (अ)/आ. व./ईख.—ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके उपखण्ड (1) के अधीन विहित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार एंरो प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, ईख की आधारिक न्यूनतम कीमत 8.50 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर, जो कि 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सहबद्ध है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वसूली की वृद्धि पर 10 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में तुरन्त नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट निर्वात पात्र प्रक्रिया वाले ईख के कारखाने

के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकर्तियों द्वारा उनके कारखाना द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर परिदत्त इस्ख के लिए संवेंय होगी किन्तु ऐसा उक्त आदेश के खण्ड 3 के अधीन उसके लिए संवेंय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

अनुसूची

| क्रम संख्या | कारखाने का नाम | इस्ख की रूपरेखा में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत |
|-------------|--|--|
| 1. | श्री राम शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. बाम्बिली, जिला श्री काकुलम (आ. प्र.) | 9.10 |

[सं. 3/17/76-शु. पा. (डेस्क-II)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव, (इस्ख)।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 1978.

G.S.R. 26(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to various factors mentioned under sub-clause (I) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations, as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 8.50 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 10 paise per quintal for every 0.1 per cent, increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price and shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or his agents for sugarcane delivered at the gate of his factory or at any purchasing centre until the 30th September, 1978 subject to the rebate payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

| Sl. No. | Name of the factory | Minimum sugarcane price in rupees per quintal |
|---------|---|---|
| 1. | Shri Rama Sugar & Industries Ltd., Bobbili, District Shri Kakulam (A. P.). | 9.10 |

[No. 3/17/76-SPY (Desk. II)]

C. N. RAGHAVAN, Joint Secretary (Sugar)